
Action Construction Equipment Ltd.

Corporate & Regd. Office
Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal - 121102, Haryana, India



Date: August 24, 2022

To,

The Manager Listing BSE Limited 5th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 532762

The Manager Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400051
CM Quote: ACE

Subject: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisement published in the FINANCIAL EXPRESS (English) and JANSATTA (Hindi) on 24th August, 2022 relating to notices of 28th Annual General Meeting, remote e-voting information and book closure.

This is for your information and record please.

Thanking you.

For Action Construction Equipment Limited

Anil Kumar

Company Secretary & Compliance Officer





GOLDLINE FINANCE PVT. LTD.

(Formerly Goldline Finance Limited)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Original Certificate of Registration (COR) issued by

If any person who finds it requested to return the same at the registered office of the Company or contact to the Company at the above-mentioned contact number

said missing Certificate and are hereby warned against misuse of the Certificate by

shall not be sold or tran	sferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "I	IFL HFL" for transfer or sale	of the secu	red ass
Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)	Description of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Posses
Mr. Kuldeep Raj Mrs.Madhu Kuldeep Sweet Corner (Prospect No IL10146716)	All that piece and parcel of Property measuring 168 sayds out of Khasar no 428 rnimin(0.4),4301/1(3-1) 5725/4301/27(1-4), 5726/4301/27(1-5), 4301/30(1-12) 4383(20-4),436(26-15),4365(1-3-4), KhewatiKhaton no. 2821/41/04 and 141/05 and Khasar no 4301/34(1-2),4301/35(1-4), 435(20-14),435((Rupees Twelve Lakh Fifty Eight Thousand Six Hundred Ninety Only)	14- Jun- 2022	20 Au 202
	ase contact to Authorised Officer at Branch Office: Spiah-143006 / or Corporate Office: Plot No 98, Phas			

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
The sale notice, for sale of immovable properties or
05.08.2022 in Financial Express (Meerut edition under Sarfaesi act. Sl. No. 25. Branch: Bhola Borrower: Teetu Tent House. Should be read a Due Amount Rs. 11,38,710 Instead of Rs 5,54,010.87 & Sl. No. 27, Branch Mohkampur Borrower: Shiv Zippers should be read as Due Amount Rs. 4,50,00,816 instead of Rs. 10,44,067.64 . The other terms and conditions will remain the same. Date: 23.08.2022 Authorized Officer

NAV BHARAT VANIJYA LIMITED

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended upto date (Rules), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Accordingly, shares held by the Shareholders who have not claimed the dividend for the last seven financial years w.e.f. 2014-15 are required to be transferred to IEPFA, in the financial year 2022-23.

In compliance of the said rules, Individual notices has been sent to all the concerned shareholders of the Company at their latest available addresses, requesting them to claim the dividends for the last seven financial years w.e.f. 2014-15 by sending a self-attested copy of their PAN card, valid proof of residence, along with copy of the cancelled cheque at the Company's Secretarial Department address at Gulab Bhawan, 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 or to the Company's Registered Office address. In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders by 30th September, 2022, the Company shall transfer the shares to IEPFA without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPFA pursuant to the said rules.

It may be noted that, the shares can be claimed back from IEPFA in accordance with procedure and on submission of documents as prescribed in the Rules, for which details are available at www.iepf.gov.in.

Shareholders holding shares in physical form, may note that the Company shall issue new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPFA as above and upon such issue the original share certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The Shareholder may further note that this notice and the specific communication sent to them shall be treated as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPFA, as above.



Date: 23rd August, 2022

Ashok Gupta

Corporate Identity Number: U70101DL1945PLC129687 Regd. Off.: Patriot House, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Tel.: 011-660071112, Fax: 011-23716607 Email: dswain@jkmail.com

BFL ASSET FINVEST LIMITED

Regd. Office: 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaiguur 302006 • Ph.: 9214018877 E-mail: httdevelopers@gmail.com • Website: www.bftfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

BPI. Assat Finvest Invited "The Company" will be held on Tuesday 20th day of September, 2022 at 03:00 P.M. through Video Conferencing (""CPT) to that Audio Visual Means ("DAVM") to transact the business as sat out in the Notice of the AGM dated Tuesday, August 09, 2022 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosures Requiremental Regulations," 2015 ("Listing Regulations," Time dwith Ceneral Circular Nos. 2/2022, 2/1/2021, 0/2020, 10/2020, 17/2020 & 14/2020 dated May 05, 2022, December 14, 2021, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 respectively (collectively referred to as "MCA Girculars") issued by the Ministry of Corporate Affasts ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/ICRI/1111 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/ICFO/ICMD/I/(RIP/2020/07) dated May 12, 2020 respectively ("SEBI Circulars") issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "relevant circulars"). Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quore under section 103 of the Act.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22

ave been sent to all the members on Tuesday, August 23, 2022 whose e-mail IDs are agistered with the Company (Depository Participant(s). The requirements of sending physica opy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispended with vide MCA

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Section 91 of the Act and regulation 42 of Listi gulations Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed on Wednesday, September 14, 2022 to Tuesday, September 20, 2022 (both days clusive) for the purpose of 27th Annual General Meeting of the Company to be held of Jesday, September 20, 2022 through Video Conferencing ("VC") | Other Audio-Visual Mear

The detailed procedural instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.

(c) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date is. Tuesday, September 13, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evating@edslindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote e-voting them existing user ID and password can be used for casting vote.

(d) Mambers who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VCIOVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

(e) Mambers who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VCIOVAM but shall not be entitled to cast their vote again.

(f) The Notice of AGM and the Annual report for the financial year 2021-22 is available on the Company's website at .www.bffin.com website of CDSL at www.ever.actingia.com and website of CDSL at www.ever.actingia.com.actingia.com. Grant of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.ever.actingia.com.

For BFL Asset Finvest Limite

Date : 23 August, 2022

Date: August 23, 2022 Place : Palwal

Punjab national bank BO: Malhipur, Saharanpur

Orignal Sale Deed Bahi No-1, Zild No-1, Page 24, No-1222, AD Book No-1, Zild No-45, Pages 557-564 Dated 26-02-1992 in the name of Ram Avatar Sharma S/o Sitaram situated at Plot No.101 Pawan Vihar, Saharanpur, is actually Lost. PUNJAB NATIONAL BANK, Branch- Malhipur, Saharanpur intends to create equitable mortgage in respect of above mentioned property's sale deed offered and in case any person has objection, the same be submitted with bank within 7 days from the date of publication. Branch Manager

Punjab National Bank Branch Mahlipur, Saharanpur

INC-26

NOTICE

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] ement to be published in the newspaper for change of registered office o the company from one state to another

Before the Central Government Regional Director (Northern Region) New Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of ANADIDEV ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (Formerly known as A H Biotech Private Limited) having its registered office at 82, SAROJINI PARK SHASTRI NAGAR DELHI NORTH DELHI 110031

INJUSTAL IDEATH IDEAHI 110031

...(Petilioner)

Notice is hereby given to the General Public that the company propose to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th August, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "Himachal Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling

investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her obj supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi- 110003, within Fourteen (14) days from the date of publication of this notice and a copy of the same to the applicant company at its registered office at the address mention

> ANADIDEV ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (Formerly known as A H Biotech Private Limited NITIN AGARWAL

> > DIN: 08832476

ANADIDEV ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (Formerly known as A H Biotech Private Limited)
CIN:U15100DL2010PTC200572
Regd. Office:82, SAROJINI PARK, SHASTRI NAGAR, DELHI NORTH DELHI 110031.

EMAIL: ahbiotech64@gmail.com

ACE

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED

NOTICE OF 28™ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

tice is hereby given that:

The Twenty Eighth (28") Annual General Meeting (AGM) of the Members of Action

The Twenty Eighth (28') Annual General Meeting (AGM) of the Members of Action Construction Equipment Limited ("Company") will be held on Tuesday, September 20, 2022 at 12:00 Moon (1871) Through Video Conferencing ("CV") Yother Audio Visual Means ("OAVM") in Compliance with the applicable provision of Companies Act, 2013 and rules made thereundor and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 21/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, and May 05, 2022 respectively and SEBI Circular No. SEBIIHO/CFDICMD2/CR(PP)2022/52, dated May 13, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate affairs (McA) and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling 28° AGM. The Notice of 28° AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email [Darace registered with the Company/RTA/ Depository. The date of completion of email of the notices and Annual Report is August 22, 2022. The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's websites at www.sce-cranes.com, and stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

REMOTE E-VOTINGINFORMATION: Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date, i.e Tuesday, September 13, 2022 may cast their vote electronically through remote e-voting on the resolutions as set out in the Nobice of 28° AGM through remote e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) at their e-Voting system. All the members are informed that:

(a) The resolutions as set out in the Notice of 28" AGM may be voted through remo

e-voting:

(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in demalerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the 28° AGM. Voting through remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. on Friday, September

16, 2022 and shall end at 5:00 p.m. on Monday, September 19, 2022. E-voting shall also be made available at the 28" AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the 28" AGM. Procedure for the e-voting on the day of AGM is same as entioned for remote e-voting. (e) The cut-off date for determining the shareholders' eligibility to vote by electroni

rise cubir date to determining the sharehouser's engionity to vide by electronic means or e-voting at the 28° AGM is September 13, 2022.

Any person who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice of the 28° AGM and holding shares as on the cut-off date i.e September 13, 2022, are requested to refer to the Notice of 28° AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and password for casting the vote or may send a request at evoting@nsdl.co.in or RTA or the Company at cs@ace-cranes.com.

Company at cs@ace_cranes.com.

(g) For process and manner of remote e-voting, and e-voting at the AGM, members may go through the remote e-voting instruction as given in 28*AGM Notice or in case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) of NSDL or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in/ 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact Mr. Abhishek Mishra, Manager (NSDL) at evoting@nsdl.co.in/

(a) No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The Remot e-voting module shall be disabled by NDSL for voting thereafter.

Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not b

allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and

the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

may also attend the Authoritist and not be entitled to dest their to the age. A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 13, 2022 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM.

 Mis Vasisht & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and

The Shareholders may refer the Company's communication in relation to TDS on dividend payment during the FY 2022-23 and related matters thereto in the Notice of 28" AGM of the Company.

For and on behalf of

Action Construction Equipment Limited

सिंडिकेट Syndicate



केन्र वैक Canara Bank

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable Property mortgaged/charged to the Secured Creditor, with each of Canara Bank, Secured Creditor, with es where is "As is what is", and "whater there is" for the recovery of dues to the Bank. As per Demand Notice under Section 13(2) & further interest thereon, charges and costs due to the Canara Bank, as detailsed in the table below:

Type of Reserve Price Name & Address of Borrower | Total Liabilities **Description of Properties** Chief Manager, Canara Bank, ARM Branch (Ph. No.) 7765950187 e-mail id cb7315@canarabank EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0007315 M/s Shivam Enterprises through Sushi A Residential & Commercial building bearing no. 23 and 24, Known as Agarsen Vihar Colony, Meerut pertaining to Khasra no. 63521 situated at Qusba Meerut City, admeasuring 334.44 sqm, Near Gyan Niketan in the Name of Sh. Neena Girdhar (Proprietor) (1). Smt Neena Gidhar, Both Address: Plot no. 23 & 24, Part of Khasra no. 6352/1, Agarsen Colony, Near Gyan Niketan Meerut, UP-4,07,99,289/as on 08.08.2022 Intt. & Other Charges thereon Girdhar and Sh. Rahul Adalkha. Bounded as: East: 60ft

> Last Date & Time for receipt tender document: 23.09.2022 up to 5.00 PM, Date & Time of e-auction: 26.09.2022 from 11.30 AM to 12.30 PM

(With extension of 5 min. duration each till the conclusion of sale)

Adjoining, Shop at Plot no. 22 of New City Bakers

Authorized Officer, Canara Bank Date: 24.09.2022

financialem.epa.in

Registered Office: 73, State Bank Colony, G.T. Road, Delhi-110009 CIN: U65910DL1992PTC048205; E-mail: goldline.finance@gmail.com Tel: 011-47041471, 8447718868

Reserve Bank of Indiato the Company, bearing No. 14.00278 dated March 04, 1998, has been reported to be lost and not traceable since May 01, 2019 and the company is applying to the Reserve Bank of India to issue duplica

All persons are hereby informed not to deal or carry out any transaction on the basis of

For Goldline Finance PVT. LTD

Mrs. Anuja Harmilap

COMPANY NOTICE

WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 91 of Companies Act 2013 & rules made thereunder, the Register of Members and Strare Transfer Books of the Company shall remain closed from 19th September, 2022 to 26th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 41st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, the 26th September, 2022 at 10:00 A.M. at registered office of Company i.e. 1, Industrial Area, Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173205.

Further, in terms of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Companie (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has fosc Monday, 19th September, 2022, as Cut-off date to record the entitlement of Members to cast their votes electronically (remote e-voting) as well as voting/polling for all the businesses to be transacted at the ensuing 41st Annual General Meeting of the Company

For Winsome Textile Ind. Ltd.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 600/1, Univers (Areas of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION

O.A. No. 1121/2019 Date: 17.08.2022 (Summons to defendants under section 19(4), of the Recovery of debts due to Bank and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

UNION BANK OF INDIA (E-ANDHRA BANK) M/s ACP TRADERS AND OTHERS

1. M/s ACP Traders, Through Proprietor Mohd Ali Office at Old No. 96, New No. 148, Bhawani Nagar, Meerut- 250002

2. Mr. Mohd. All son of Mohd Akhtar resident of 148, Bhawani Nagar, Meen

 Mrs. Anjum Ara wife of Mohd Ali resident of 148, Bhawani nagar, Meeru 250002, also at 443/13, Sector- 13, Shastri Nagar, Meerut- 250002 ...DEFENDANTS

REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

	is of the assets offered for sale is as t		omar groung:	garram.com
Parcel/ Lot No.	Description of Assets included in the Lot	Reserve Price	Amount of EMD (in Rs.)	Tick Size of the Bid
1.	Lot /Parcel comprises following assets: Receivables and Long Term Loans	Rs. 3.47 Crore	Rs. 17,35,000/-	Rs. 1,00,000/

1.	Lot /Parcel comprises following assets: Receivables and Long Term Loans of the CD	3.47	Rs. 17,35,000/-	Rs. 1,00,000
	IMPORTANT E	ATES		
1.	Last date for submitting expres interest to participate in E Auction P	sion of	29-Augu	st-2022

2. Lest date to submit Earnest Money Deposit (EMD) 12-September-2022

IBBI/IPA-001/IP-P00705/2017-18/11252

Liquidato Supreme Tex Mart Ltd ipravinderkumargoel@gmail.com Mobile No. 8427050225

🔯 Karnataka Bank Ltd.

Head Office, Mangalury - 575 002 Asset Recovery Management Branch 8-B.First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, :011-40591567 Extn. 240 :delhiarm@ktkbank.com :9319891680 E-Mail

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

tice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guaranto (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aranalaka Bank Ltd, the Secured Creditor on 30.04.2015, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on 13.09.2022, for recovery or Rs.60,50,666.50 (Rupees Sixty Lakhs Fifty Thousand Six Hundred Sixty Six and Paisa Fifty Only) i.e. under Term Loan Account No.0297001600020001 along with future interest from 09.01.2016, plus cost, due to the Karnataka Bank Ltd, Prayagra Branch,No.23, G-Marg, Manorama Plaza, Civil Lines, Prayagraj-211001, Ultai Pradesh the Secured creditor from (1) Mr. Rajeev Anand Slo Late Manohar Lal Anand. (2)Mrs. Sunita Anand Wo Late Manohar Lal Anand, both (1) and (2) are residing at No.493, Muthiganj, Near Raja Bar ka Hata, Prayagraj-211003being borrowers. quarantors/co-obligants.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:

All that part and parcel of Property bearing No. Old No.3, New No.7, New Shanti Hotel. Shiv Charan Lal Road, Prayagraj comprising of land measuring 277.49 sq.mtr with building constructed thereon, belonging to Mr. Raj

Reserve Price / Upset Price below which the property may not be sold Rs.3,90,52,000.00 (Rupees Three Crores Ninety Lakhs Fifty Two Thousand only) Earnest money to be deposited/tendered:Rs.39,05,200.00 (Rupees Thirty Nine Lakhs Five Thousand Two Hundred Only)

(The borrower's/mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) or Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset). (This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security

Website i.e.www.karnatakabank.com under the head "mortgaged assets fo sale". The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ or

13.09.2022 from 11:30 A.Mto 12:30 P.M with unlimited extension of 0.5 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on the user Id and the user Id and Id 12.09.2022) from M/s.4closure, 605A, 6th Floor, Maitrivana 500038, contact No.040-23836405, mobile 8142000809, E-mail: vinay@bankauctions.in and info@bankauctions.in.

Date: 20.08.2022

Videshwar Sharma Company Secretary ACS - 17201

O.A No. 1121 of 2019

....DEFENDANTS

Place: NEW DELHI

-250002 also at 443/13, Sector -13 Shastri Nagar, Meerut- 250002

In the above noted application, you are required to file reply in Pape Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any personally or through your duly authorized agent or legal practitione in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 25.10.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in you

SALE NOTICE

SUPREME TEX MART LIMITED (In Liquidation) Notice is hereby given to the public in general that under the process or Liquidation of M/s Supreme Tex Mart Limited (in Liquidation), in terms of the order of Honorable Adjuidateling Authority, NCLT Chandigarh dated 08 08-2018, E Auction shall be conducted for selling the "Sale of Assets of the company in parcel/for of SupremeTex Mart Limited" under the Company and Company of SupremeTex Mart Limited under the Company of Regulation 33 r.w. Schedule 1 of IBBI (Liquidation Process) regulation 2016

Regulation 33 r.w. Schedule 1 of IBBI (Liquidation Process) regulation 20 to of the insolvency and Bankrupticy Code, 2016. Interested participants in the e Auction process are hereby called to express their interest to participate in the E Auction process. The details of the procese, eligibility conditions, EMD, details of the assets etc. can be obtained by downloading the E Auction Process Information Document from http://creditio-watch.inie/1/folg/sales-notice/supreme-textmart or by sending request to the liquidator on ipravinderkumargoei@gmail.com

Detai	is of the assets offered for sale is as t	selow.			
Parcel/ Lot No.	Description of Assets included in the Lot	Reserve Price	Amount of EMD (in Rs.)	Tick Size of the Bid	
1.	Lot /Parcel comprises following assets: Receivables and Long Term Loans of the CD	Rs. 3.47 Crore	Rs. 17,35,000/-	Rs. 1,00,000/	
	IMPORTANT	DATES			
$\overline{}$					

3. Allotment of User ID & Password 13-September-2022 4. E Auction 14-September-2022 Ravinder Kumar Goe

CIN: L85110KA1924PLC001128

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with provision to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Boundaries: Fast : Government Road

Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's

For Karnataka Bank Ltd

Chief Manager & Authorised Officer

South: House Sri. Subhash Gupta

ce Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest At and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 1 a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the BorroweriCo-Borrowers mentioned herein to repay the amount, notice is thereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken position of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules orrower in particular and the public in general are hereby cautilioned not to deal with the property and any dealings with the rity will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. Demover's alternions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, II file borrower class the down of the subject of the section (8) of section 13 of the Act, II file borrower class the down of the section (8) of section 13 of the Act, II file for transfer, the secured asset not be soft or fransfer day "IIFL HFL" and no further size sphall be laken by "IIFL HFL" for transfer or 13 of the secured asset on the soft of ransfer the secured asset on the secured asset of the secured asset of

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd. FEDERAL BANK

Lok Vihar, Pitampura, New Delhi Branch

YOUR PERFECT BANKING PARTNER B-156, LOK VIHAR ROAD NO.44, PITAMPURA, NEW DELHI-110034 CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR GOLD AUCTION Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular that e-auction of the pledged gold ornaments in the below

nentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., or 13.09.2022 through online portal, https://gold.samil.in. Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at B-156, Lok Vihar Road No.44, Pitampura, New Delhi-110034 for further information. In case e -auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items on any subsequent date/s without further notice. Loan Account No. / Rupeek ID Branch Name

New Delhi/Pitampura 14536100016077/2108518 New Delhi/Pitamoura 14536100016119/2039156 New Delhi/Pitampura 14536100016200/2147493 New Delhi/Pitampura 14536100016457/2170362 New Delhi/Pitampura 14536100018016/2199501 Dated: 24.08.2022 Sd/- Authorised Officer, For The Federal Bank Ltd.

Canara Bank Ballabhgarh DPCD Chawla Colony, Main Mathu POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For immovable property) The undersigned being the Authorised Officer of the on And Reconstruction of Financial Assets and Enfo ilsation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement or Security Acd., 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of a conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest rement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 19/03/2022 calling upon the rer Miss Shree Balaji Enterprises, Sri Jai Praksah (Prop. of Shree Balaji.

ndred Sixty Two and Thirty Two paisa Only) within 60 days from the date of receipt of rrower and the public in general that the undersigned has taken possession of properly described herein below in exercise of powers conferred on him / here section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 17

notice being Rs. 14,02,662.32 (Rupees Fourteen Lakh Two Thousand Six

iday of August of the year 2022.
The borrower in particular and the public in general are hereby caulioned not to det with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 14,02,662.32 (Rupees Fourteen Lakh Two Thousans Six Hundred Sixty Two and Thirty Two palsa Only) and interest thereon.
The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, is respect of time available, to redeem the secured assets. Description of the immovable Property
All the part and parcel of the property consisting of Flat No/Plot No. House No.143
MCF No. 2863 (2113/1801 As per MCF receipt) comprising in khasra no. 55//22,

23//1.55/23/2,58//1,2,55//3,20/01,57//5,55//8/1,8/2/13,18,21/2 measuring 100 sc ard measuring 20°45 situated at Adarsh Nagar, Ballabhgarh, District Faridabac aryana- 121004.

Regd. office: 27 BCc. C-27, G-Block, Bandra Kura Complex, Bandra (E), Mumbar-40005

B.O.: Kotak Mahindra Bank Limited, Madhya Mara 2nd Flora Scholl School S O.: Kotak Mahindra Bank Limited, Madhya Marg, 2nd Floor, SCO 153-154-155, Sector-9C, Chandigarh-18000 Domaind Notice Under Section 13(2) Of The SARFAESI Act, 2002 You the below mentioned borrower and co-berrowers have availed loan(s) from bank/inancia institution, more particular described hereunder by mortgaging your immovable properties were classified as non-performing assets and said loan acquints aliquely in all grights, titles, were classified as non-performing assets and said loan acquints aliquely in all grights, titles, interests, benefits dues receivables have been assigned in favour of Kotak Manindra Bank Limited vide separate deeds of assignment mentioned hereunder, the bank has pursuant in the said assignment and for the recovery of the outstanding dues, issued demand notice under section 13(2) of the security intelligent and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act, 2002 (the act), the contents of which are being published herewith as per section 13(2) of the act create with rise 3(1) of the security interest (efforcement) rules, 20(2) as

Name and Address of the Borrower, Co-Borrower, Loan Account No., Loan Amount	Details of The Immovable Property	Name of Lender Date of Assignmen Demand Notice Dat
Mr. Raj Kumar & Mrs. Sita Both At: Village Dewan, Dewa (60), Muklan, Near By Reliance Tower, Hisar, Haryana- 125004, Also All At: Rhewat No. 2011; Natauni No. 206, Khasara No. 2012-11, H No. 30 Ward No. 2 Near No. 2013-11 No. 30 Ward No. 2 Near Sy Reliance Tower, Dewan Muklain, Haryana- 125004. Nu m b er: 5418.15E1449.10 nt Nu m b er: 5418.15E1449.10 nt Nu m b er: 4129.51914.Rugees Fourleen Lakins Twenty Nine I housand Five Hundred Nineteen Only	knasra no. 201 (2-1), measuring 1k-0.4m situated at Village Deva Tehsil & Distt, Hissar- 1 2 5 0 0 4 , R e g d . Transferdeed No. 10786 Dated 14.03.2019.	4. Amount Due In Rs. 1. BAJAJ FINANC LIMITED. 2.30.03.2022 3.11.08.2022 4.Rs. 9.91.913/-(Rupee Nine Lakhs Ninety Or thousand Nine Hundre Thirteen Only) due ar payable as of 11.08.202 with applicable intere

Nineleen Only). "Our proposer and co-corrowers are hiperienc called upon to make payment in full "Our lies borrower and co-corrowers are hiperienc called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 days of this notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned securifies. Your attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the act by virtue of which you are at liberty to referent the securior asset which period supplieded in the givenesal provision. Pease note that as per section 13 of a sale, lease or otherwise without our consent. Section 19 of the course of the section of th

date of receipt of the said notice

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, SCO No. 70 Sector 5, Panchkula-134109, Tel. No. 0172-2573570 Fax No. 0172-2585707, Email: sbi.51519@sbi.co.in

(FOR IMMOVABLE PROPERTY)
the undersigned being the "Authorized officer" of the State
India, S.A.R. Branch, PANCHKULA Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act.] 2002 (54 of 2002) and in ed under section 13(12) read with '[rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demannotice u/s 13(2) dated 09-02-2022 calling upon the borrower/guarantor M/s. Jain Brother, Add. Shop No. 20-21 Kocher Markit, Jhajjar Road, ROHTAK Prop. Sh. Sunii Jain S/c Sh. Jagdish Rai Jain, R/o H. No. 31, Kocher Markit, Jhajjar Road ROHTAK <u>Guarantor:</u> - (1) Smt. Seema Jain w/o Sh. Sunil Jain & (2) Sh. Udit Jain S/o Sh. Sunil Jain, Both R/o (I) H. No. 31, Kocher Markit, Jhajjar Road, ROHTAK & R/o (II) H. No. 173-L, Model Town, ROHTAK (Loan A/c. No. – 30717384977 & 39385617288) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 60,60,211.47 (Rupees Sixty Lac Sixty Thousand Two Hundred Eleven and Forty-Seven Paisa Only) up to 09-02-2022 within 60 days from th

(SEE RULE 8(1)) PHYSICAL POSSESSION NOTICE

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that he undersigned has taken possession of the property describe serein below in exercise of powers conferred on him/her unde section 13(4) of the said Ordinance read with rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) Rules on this 22th day of August the The borrower/quarantor in particular and the public in general i

an amount Rs. 60,60,211.47 up to 09-02-2022 along with future Interest thereon plus charges and expenses.
The borrower/guarantor attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act in respect of time available to DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

hereby cautioned not to deal with the property and any dealings will the property will be subject to the charge of the State Bank of India, fo

Equitable Mortgage of Property Shop Land measuring 52.91 Sq. Yds. Ground Floor Only) bearing Property ID No. 95C592U153P30, situated at Near Beri Wala Pech, Kocher Markit, Jhajjar Road, within Mc. Limit, Rohtak in the Name of Sh. Sunii Jain S/o Sh. Jagdish Rai Jain, Vide Sale Deed No. 3689 dated 29-06-2005 and bounded as under: East:-27-2* Property of Sh. Ashok Jain wall Comman, West: 27'-0" Property of other, North: 17'-7" Property of Vimal Parsad Sel

(Authorised Officer) State Bank of India, S.A.R. Branch, Panchkula

250001.(2), Sh. Rahul Adalkha, Address:

House no. 49, Ward no. 8 & 9, Bawal,

Rewari, Haryana-123401

For Nav Bharat Vanijya Limited

OTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

onic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2021-2.

("OAVM").

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Becartarias of India, the Company is previding eventing facility to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through votion by well-training and ("Cemate exclains").

solutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted rough volting by electronic means (Femate e-voting). It has regard, the Members are beetly further informed that:

1) The remote e-vetting period shall start at 09:00 A.M. on Friday, September 16, 2022 and shall end at 05:00 P.M. on Monday, September 19, 2022. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. on Monday, September 19, 2022. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. on Monday, September 19, 2022. The same will be disabled by COSt thereafter.

3) A person whose names is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date is. Tuesday, September 13, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedural instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.

Sd/-Mahendra Kumar Baid (Managing Director) (DIN: 00009828)

For details terms and conditions of the sale please refer the Canara Bank's website www.canarabank.com or may co during office hours on any working day. Authorised Officer reserve the right to cancel the auction at any point of time.

BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 13, 2022 to Tuesday, September 20, 2022 (both days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2021-22.

> Company Secretary **E-Auction Notice**

241.49 (Lacs) 24.14 (Lacs) Adjoining 40ft wide Road, West: 60ft-Adjoining Property of others, North: 60ft - Adjoining Plot no. 25, South: 60ft

New Delhi

दिनांक: 23.08.2022

1

नमय माध्यम, कॉरपोरेट सेंटर, 3री

थी क.: SBI/ACV/2022-23/001

हस्ताक्षर/

उप महाप्रबंधव (कार्यान्वयन व रोल आउट)

आकेंड कफ परेड मंबई - 400

केन्द्रीय भण्डारण निवास (भारत सरकार का जवक्रम) ४/१, सीरी इम्स्टीण्युकानक एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, ठोज खास, महे दिल्ली-10016, फोन 10128524100

हांज खास, नई दिल्ली-110016, फोन 01128524100 जन-जन के लिए मण्डारण
सं. के.भ.नि./बी.एण्ड सी./एखीएभ/2022
पूर्वना
कंन्द्रीय गंजरण निगम की 80वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 24.09.2022 (शनिवार) को
निगमित कार्यात्वय में दोपहर 12.00 बजे विडियो कॉन्क्रेरिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमें
(वींसी) ऑपरीएम) से आयोजित की जाएगी। बैठक में भाग लेने के संबंध में विस्तृत त्युवना एवं वर्तिक्ष सभी आयोजित की जाएगी। बैठक में भाग लेने के संबंध में विस्तृत त्युवना एवं कॉन्क्रेसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम् (वींसी) औपर्योपभी से बैठक में भाग लेने के लिए प्रियामार्थीयों को पूर्व तरह से भर हुआ प्रोज्यों फान (होलोग्राम लगा हुआ) (नूल-ग)/ स्कत्य बाक / कुडिबर से संविध कार्यालय, केन्द्रीय संवारण निगम, 4/1, सीरी इन्स्टीव्यूकनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हीज खास नई दिल्ली-110016 में मेजना है तथा वे उत्तर फार्म रास्त्र), ज्ञानस क्राणिन सान्, ठाज खास, न. इ. (२००१-११) क्रान में प्रणान के तथा व उत्तर कान की स्केन प्रति हैं-मेल secycwc@cons.con.com वॉ वॉट्स्अग ने, 491-9971236904 पर भी दिनांक 20.09.2022 को 17.00 बले तक या इससे पूर्व गेल यें। सूचना की तिथि अर्यात् 24.08.2022 से पहले जारी और दिनांक 20.09.2022 के बाद जमा किए गए प्रोक्सी—1/ संकट्य पर विचार नहीं किया जाएगा।

कुपया विरत्त जानकारी के लिए www.cewacor.nic.in पर लोंग-ऑन करें। सचिव, के.ग.नि.

GOALPOST INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Gulmohar Investments and Holding Ltd)
Regd Office: 324A, Illird Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14,
Rohini, New Delhi-110085 | Tel.:011-27860681
Email: gulmoharlimited@gmail.com | Website:www.goalpostltd.in
CIN:L74110DL1982PLC013956

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on

The Notice convening the Meeting along with Annual Report has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday, August 12,2022.

vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostitd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date(Record date), i.e., Friday 09th September,

Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for

NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Friday 09th September, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the AGM and to receive final dividend for the financial year 2021-22. The dividend, if declared at the AGM, will be paid within a period of 30(thirty) days from the conclusion of the AGM

Goalpost Industries Limited

Date: 23/08/2022 Place: New Delhi

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 एवं सेबी परिपत्र स SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 रिनोक 13 गई, 2022 एवं कॉपॉरट गागर्द मन्त्राहव ('एससीए') एवं सेवी द्वारा निर्मत अन्य प्रयोज्य परिपर्शी (सामृहिक रूप से "'प्रासीण परिपर" प्रन्तिनेत के अनुपालन पंजीएक आंवीलक करने की सुन्त में निर्पार्तित करवारा वे तेन-देन के लिए एक्शन कंरट्रक्शन इंक्शियमेंट लिमिटेड ("'कम्पनी") के सदस्यों वं त्ता-दन के लिए एक्शा करहेबान ड्रांक्सपम्ट (लीमटड ("काम्पना") क सदस्या व अद्दारहंसवी (२८वर्षी) आर्थिक आग बेठक (एजीएम) वीविष्ठी कांग्रेस ("जीसी"))अत्रथ आहिंद चित्रुअल साधनों ("ओएसीएम") के साध्यम से मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को 12,00 बर्च अप. (भा.मा.स.) पर आर्थितित की जायेगी। 25वर्षी एजीएम की सूचना तथा 51 मार्च, 2022 के समागत वित्त वर्ष की वार्षिक सिटों एव सिटों ई-बोटीस का वितरण उत्त सभी संदर्शों के पाइ इतेवहानिक माध्यम से भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्मनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ

अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली से उनके ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 28वीं

्रजीएन की सुचना में निर्धारित संकल्पी पर सिमेट ई-बोटिंग के हार इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपन पत्रीएम की सुचना में निर्धारित संकल्पी पर सिमेट ई-बोटिंग के हार इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपन मतदा कर सकते हैं। सभी मदस्यों को सुवित किया जाता है कि : 1. 52वीं एजीएम की सुचना में निर्धार्थ संकल्पों पर सिमेट ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान किया जारेगा 2. डीमैंटरियलाइन्ड मोड, फिज़िक्त मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों हारा और जिन सदस्यों :

जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे 28वीं एजीएम में मतदा कर सकेंगे। ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के दिन वहीं है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित है। 28वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों या ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों की पात्रता निर्धारि

अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के लिए 28वीं एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें voting@nsdl.co.in या आरटीए या कम्पनी के पास cs@ace-cranes.com पर निवेद भेजकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के लिए, सदस्य 28वीं एजीएम सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग निर्देश ध्यान पूर्वक देख सकते हैं या एजीएम और ई-वोटिंग भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में सदस्य एनएसडीएल के Frequent Asked Ouestions (FAOs) का सन्दर्भ ले सकते हैं या एनएसडीएल nsdl.co.in/1800 1020 990 तथा 1800 224 430/ पर संपर्क कर सकते हैं या

्र सदस्य व्यान द कि . (क) कथित तिथि एवं समय के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके पश्चा

ख) अंदर्स्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लन क उपरान्त सदस्य का बाद म इस बदल-की अनुमति नहीं होगी। (ग) ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है ये भी एजीएम में

20 सितम्बर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक वार्षिक आम बैठक और वित्त वर्ष 2021

22 हेत लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बन्द रहेंगी

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्किपमेंट लिमिटेड

आपको दिनाक 08.08.2022 को जारी सरफेसी 13(2) नोटिस

जिसमें

रु. 12,12,87,738.83/

* ब्याज + अन्य प्रभार

भुगतान

(w.e.f. 01.08.2022) . करने को गया था जो

पंजीकृत डाक द्वारा भेज

प्राधिकृत अधिकारी

||, फोन: 211-40591567 (एक्स्ट:240) मो 2319521560 इमेल: delhiarm@ktkbank.com वेक्साइट: www.karnatakabank

पंजाब नैशनल बैंक



punjab national bank the name you can BANK upon !

सर्किल शस्त्र , पौएनबौ हाउस , भेल , सेक्टर IV , हरिद्वार-249403 ई-मेल:CS8238@PNB.CO.II (सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वेकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनवर वें के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारदरों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है और सरफंती अधिनियम प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी के नियम 3 के अत्यर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। तांकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित ककाया का मुस्तान इस प्रकाशन के उपरांत 6.0 दिनों के अंदर करें। कृप्या यह नोट करें कि यदि अप सभी निम्न वर्णित काराय का मुस्तान इस प्रकाशन के उपरांत 6.0 दिनों के अंदर करें। कृप्या यह नोट करें कि यदि अप स्थान के वाल के अल्प के अल्प स्थान के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्मति, सम्पत्तियों पर कल्का करने की प्रक्रिया आरंत्र करेगा और उसके वाद उस्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध किया अपरांत्र अपरांत्र अपरांत्र करेगा और उसके वाद उस्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए विना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। यह नोटिस आपके खिलाफ बकाया पश्चि की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकृत समाग जाते विना आपको संवोधित किया गया है। जाता संद्या 092408500011990 (CCI, 024001000000656) (GECL), 092400100000065111) और 0924005000000011(TL) को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सियिल लाइन्स रुड़की, हिस्तार द्वारा सेसर्स वैन्स फार्यास्युटिकल्स ग्रा. लिमिटेड ग्राम रायपुर भगवानपुर रुड़की, जिला हिस्तार, उत्तरांत्र हैं – 247667 को क्रेडिट सुविधाओं उपलब्ध है । आपके द्वारा सुपीत ऋण का भुगतान न करने की रिथति में बैंक द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित परिसर्पातियों का विद्या निमानानास हैं – हरिद्वार, उत्तराखंड –24 विवरण निम्नानुसार है:–

ऋणी/गारंटर/बंधक का नाम एवं पता सुरक्षा/संपत्ति का विवरण

1. में 0 विन्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. कारखाना:- औद्योगिक भूखण्ड, खाता संख्या 308, खसरा संख्या, 310,जो ग्राम 2. कंपनी की अन्य सभी मौजूदा परिसंपतियों का दृष्टिबंधक। रायपुर परगना एवं तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार—247667 में स्थित है। कार्यालय:- प्लॉट नंबर 8–16, साउथ सोती गंज, गुरुद्वारा रोड (खूनी पुल) मेरेट—250 02, ई-नैल:-vagspharmaceuticals@mail.com 2. श्री महेश चौहान पुत्र श्री कंचन सिंह चौहान (निदेशक/गारंटर)

न १९८ – 20 10 / १, चना का विश्व संख्या—17 / १, के कार्यामा भूग पूर्व भवन विका विश्व संख्या—17 / १ औं महेश चौहान पुत्र श्ली कंकम सिंह चौहान [मिरे चकां/गारटर)
पता: — हाउस नं0 . 2 पीएसी रोड , गोकुलघाम कॉलोनी, सुमाघ नगर, हरिद्वार—
249407, इसके अलावा: — ग्राम + पोस्ट ऑफिस—चिवली थाना—जेवर, जिला—गीतम
बुद्ध नगर पूर्पी—203207, इसके अलावा:— हाउस नंबर 1 दिहरी यिख्यापित कॉलोनी
हरिद्वार—249407. ई—मेल:— Vc12345@gmail.com मोबाइल नंबर—
6 सैत्रफल कुमार पुत्र श्ली प्रकाश दत्त शर्मा (निदेशक/गारंटर)
पता:— 253 गली नंबर—6 सैलल राम कॉलोनी आर्य समाज रोड सैराला तहसील नंबरी— संवति स्वामी — मै० वेग्स फामारंयुटिकल्स प्रा० लि० के पक्ष
पता:— 253 गली नंबर—6 सैलल राम कॉलोनी आर्य समाज रोड सैराला तहसील

9411122989 3. श्री नीरज कुमार पुत्र श्री प्रकाश दत्त शर्मा (निदेशक/गारंटर)

गली नंबर- 6, दौलत राम कॉलोनी, आर्य समाज रोड दौराला तहसील पता: — 253, गला नंबर— 6, दोलत सम कालाना, आय समाज राड दाराला तहसाल सरधना जिला मेरठ— 250221, इसके अलावा: — हाउस नं0 593 दोलत राम कॉलोनी पोस्ट—दौराला जिला—मेरठ यूपी—250221, ई-मेल: — Vc12345@gmail.com, मोबाइल नंबर—9997836291, 9119068138 4. श्री विजय चौधरी पुत्र श्री जगदीश सिंह (गारंटर) पता: — हाउस नंबर—231, साउथ सोती गंज, केंट्र मेरठ, मेरठ (यूपी)—250001. इसके अलावा:—539, रायपुर, हरिद्वार—247661, इसके अलावा:— ए—276 सोती गंज मेरठ—250001

 श्रीमती लैम कौर पत्नी श्री सोहन सिंह (बंधक/गारंटर) . पताः – बसंत विहार, वार्ड नंबर –4 बिनोली शेड बङ्गेत, जिला– बागपत यूपी– 250611. इसके अलावा ≔ हाउस नंबर –146 मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली–110021.

में 30 साल की लीज डीड। 5. आवासीय प्लॉट खाता नंबर—234 , खसरा नंबर— 512/ कुल क्षेत्रफल 16610 वर्ग मीट्रर है। जो छाजरसी (लोनी) परगनाः लोनी, तहसीलः दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर क (इंद्रपुरम गाजियाबाद के पास स्थित है जिसका जीडीए पर संख्या–199/नियोजन/अनुभाग 2017 दिनांक 23.12

3. कंपनी के सभी संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तिर

कारखाना भूमि एवं भवन विक्री विलेख संख्या−1471,

跎 Karnataka Bank

Your Faimly Bank, Across India. Head Office,Mangaluru – 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एयं पूर्वनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त-अधिनियम, 2002 के साथ पदित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 थे नियम (१) के प्राथमान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ानयम ५ १) के प्रावधान के अतमत अवल पारस्थानाया की बिक्रों के लिय इं-नीताणी विक्री सूचना पतददारा आम जनता नवा विशेष रूप से कृणधारक (को) तथा गारन्दर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत केडीटर के पास गिरधी/चार्ड नीचे वर्णित अचल सम्पनि जिसका कृणोटका चैंक लि., प्रतिभृत केडीटर के पास गिरधी/चार्ड नीचे वर्णित अचल सम्पनि जिसका कृणोटका चैंक लि., प्रतिभृत केडीटर के पास गिरधी/चार्ड नीचे वर्णित अचल सम्पनि जिसका कृणाटका चैंक लि., प्रतिभृत केडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 21.09.2021 को सौकितिक कृणाटका चैंक पास की की अधोतिविक्ता) में, हारियाण खार एचं बीच भंदार, प्रतिनिधित्व इस्त उसके प्रणादिटर 1) ध्रमस्थीर, पुत्र मुख्तभान, पत्ताः रेलबे रोड, होते शो कर्णाटका खेंक हित्ता, गती। तला सोनीपत, हरियाणा–131101, 2) वी सुरुवभान सिंह, पुत्र श्री हरि रिह, 3) शीमती शीला देवी, पत्नी श्री ध्रमस्थीर, दोनों (2) एचं (3) निवसतीः मकतन ने, 112, प्राम, प्रतिस्ति तहस्तील गती, जिला सोनीपत जो ऋणधारकलारिटरसर-देनवार है, से कर्णाटका खेंक लियि, गति खाला है कर्नो रोड, वियवकार्म गारिटर के निवस्त, न्यान हो स्थापित के सामने, गतीर-131101, सोनीपत-जिला, हरियाणा, प्रतिभृति कडीटर के चकार्य रु. 1,00,01,922.62 (रूपसे एक करोड़ इस लाख एक हजार नी सी बाईस एवं मेंद्र वासाय मात्र) अर्थात् पी,एस जोगदाइपस्ट काता से 27070000000000 को खंतरीत देव तथा 01.08.2022 से आगे के ब्यान एवं लागती की चहुली के लिये 13.09.2022 को "जैसाई कर्डी है", तथा "'को कुछ भी चहाँ है" तथा "को भी जैसा है"।आधार पर बिक्री को जारेगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती शीला देवी के स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति खेवत नं. 398 मिन, खाता नं. 596, रेव

श्रीमती शीला देवी के स्वासिक में आवासीव सम्मित खेवत ने, 398 मिन, खाता ने, 596, रेक्ट एवं किल्ला ने, 408/25, अन, मार 271 वर्गा वर्गा, व्याका मीजा अरहनपुरी गढ़ी, केससी, गनीर, तहसील गनीर, जिला सोनीपत का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहरी। पूर्वः अन्य को सम्मित, परिचमः अन्य की सम्मित,

उत्तरः गली, दक्षिण अन्य की सम्मित,

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्मित की बिक्री नहीं की जायेगी

र.45,00,000,00 (ह. पैतालिस लाख मात्र)

जमा-पुगाना को जाने वाली सोहर स्वीस रही है. 4,50,000,00 (ह. चार लाख पचास कवार मात्र)

(ऋणधारको/ मार्टीजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्मित्रयों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के सद्ये में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राथमानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

भागा e i) पह सब्दे स्वाचन को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिये प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावसी-2002 थें नियम (९) के उप-नियम (१) के अंतर्गत) सुचना भी मानी जायें।) मिक्री के दिवस्तृत नियमों एवं जती के लिये कृषणा कर्णाटक बेंक को येवसाईट में ही गई लिक अर्थात् www.karnatakbank.com पर गीर्थ '' फिक्री के लिये गिरवी परिसम्पतिचां'' देखें

अवार्त (www.karnatakbank.com पर शाण ' निकीन के तथा गरावत्री पारत्या पारस्यमावाचा ' रहे - है- निवार्ती कर संवार्त्य न 1,309,2012 होता. से 1,32,50 को जुम, तंत्र 5, 50 कि तथा की अधीरित दिवता के साथ धीरेतः https://bankauctions.in पर किया जानेण करहक्क सोलीवात को https://bankauctions.in पर अपना नाम निव्युक्त कंगीकृ कराना होगा तथा मैं, ब क्लीबर, 605 ए, छटा तल, मैंजीवनम, अमीरपेट, हैदराबार-50003 सम्पर्क ने . 0.40-23736405, मीवार्यंत्र 8142000809, ईमैतः vinay@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमानतः 12.09,2022 को) पर अं लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

2017), जिसकी सीमाएँ इस प्रकार है:- पूर्व में- चक रोड पश्चिम में - सावन सिंह की खुली मूमि, उत्तर में- श्री नरेंद्र पाल सिंह की खुली भूमि, दक्षिण में- वीर पाल की खुली भूमि, श्री पाल, बाग मल। संपत्ति स्वामी - श्रीमती लैम कीर पत्नी श्री सोहन सिंह।

आस्त बसूला प्रचधन शाखा s-प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड,

कर्जदार का ध्यान , प्रत्याभूत आस्तियों का छुड़ाने के लिए , उपलब्ध समय के संबंध में , अधिनि । की घारा 13 की उप—घरा (ह) के प्रावधानों की ओर आ कुपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना संदर्भित सुरक्षित आरितयों को आप बिकी पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पठयकम के अलावा) में से किसी भी माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेंगे।

नोट: सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत जारी सभी पिछले नोटिस और की गई कारवाई सहित सरफेसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के तहत 28.07.2022 को जारी नोटिस को कुछ तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है।

दिनाक: 08.08.2022 रथान : हरिद्वार

🦚 🛮 Indian Bank ALLAHABAD

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेत्)

[शिवीय जारिकों के प्रतिमृतिकाम पुनर्शन राज्य प्रतिमृतिकित प्रतर्शन जारिकीयम् 2002 की भाग 13(4) के ततन विभाव 28.03.2022 को वी गई पूर्व पुनराम को प्रत्यत्त ते तिका गया है। आगोहस्ताकरी जो कि इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इत्ताहाबार बैंक) का प्रतिकृत अधिकारी है ने रिक्योरिटाइजे रिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (54 of 2002)

क वाता/कणै/बसक परितम्पति		प्रभारित / बंधक / वृष्टिबंधक की नई परितम्परित	दिमाण्ड नोटिस की विशि
स	सं वे स्वामी का नाम जमानकवर्ता	(वरिसन्पतिस से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित) विवरण	कम्पा नोटिस की तिथि
का नाम एवं पता	का नाम एवं पता		बकाया शेम (स. म)
	शास्त्रः उजिंश्यांव		
1	कानी: मेलर्स नस्रायनी क्रिक फील्ब ।	तन्पति के सभी भाग एवं सारक स्थित पतीट संठ 504.	29.09.2021
	जाणी/बंधककर्ताः श्री नरेंद्र	पांचर्या मंजिल, कुंती अपार्टमेंट, उद्यान 🕕 रका खण्ड,	23.08.2022
कुमार जगानत तुःससिः वतरः अपाटमा	पवती प्रभाद तुलसियान। मानतकर्ताः स्त्री नरेंद्र कुनार संस्थियानः सभी निवासी १७. एफआई गंगा सागव पाटेनेट राम तील्य मार्गः	कारदा नगर, साध्यक्त, क्षेत्रफल: 82.72 वर्ग गेंदर, एक्क्की भी नदेंद्र, क्ष्मान्य पुलसियान पूज की कराजी सस्तार पुलसियान, (प्रजीवारा काल कींग्र का 5864 दिगाक 30.03.2017 स्त्री रोठ 01, जिल्द का 22112 पेज 177 से 204 ताज़) कींग्रदी (बींग्र के अनुसार), पूर्व, पूजा जातमान, परिचान करेंद्र, कराज अधार गांविकार, चाकर, कांग्रिट के 50 जा उसके कींग्रदा सीक्ष्य जातमान,	+ भगाज एवं अन्य खर्म अतिरिक्त

प्राधिकृत अधिकारी, इंतियन वैक (पूर्ववर्ती इसाहाबाद वैक)



गुमशुदा व्यक्ति की तलाश र्वसाधारण को सूचित किया जाता व्यक्ति नाम राम चन्द्र, पुत्र कालू जी, निवासी मकान नं. सी-391, कैम्प नं. 2 नांगलोई, दिल्ली। उम्र 64 साल, कद 5'8", गेहुआ रंग। जिसने ग्रे रंग की शर्ट गहरे कॉफी रंग की पैंट व हवाई चप्पल पहने हुए है। जो दिनांक 03.08.2022 से अपने घर से लापता है।

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश करने के राम चन्द्र

बावजूद भी इस लापता व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल सका है। इस संदर्भ में डीडी नं. 138-ए 03.08.2022 थाना नांगलोई दिल्ली में दर्ज है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी / सूचना हो तो निम्नलिखित पते पर सूचित करने

की कृपा करें। ई-मेल : cic@cbi.gov.in फैक्स : 011-23011334 011-23014046 011-23015218

थानाध्यक्ष थाना नांगलोई, दिल्ली फोन: 011-25949470, 7065036127

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड सीआईएन :L51909DL1983PLC016907

मुद्दा रोह. नई हिन्दिनी-10044 मुद्दा रोह. नई हिन्दिनी-10044 ई-मेल :compliance@bisinternational.net वेबसार : 1 www.bisinternational.com बीएलएस इंटरनेशनल सर्थिसेजा लिगिटेड की 38थीं खार्षिक आम बैटक कम्पनी के सदस्यों से एवड़ारा नोट करने के निवेदन किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2015 ''अधिनियम'') के प्रयोज्य प्रावधानों. कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2026 (आधानभ) के प्रयोज आधाना, कांग्य स्थान मनातथ हुं। तमान सामान्य पापम से 1,12/2020 हिनांक 19 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न सं, 17/2020 हिनांक 19 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न सं, 20/2021 हिनांक 15 जनवरी, 2021, सामान्य परिपन्न सं, 2/2021 हिनांक 15 जनवरी, 2021, सामान्य परिपन्न सं, 2/2021 हिनांक 16 स्टिमस्ट, 2021 तथा सामान्य परिपन्न सं, 2/2022 हिनांक 5 मई, 2022 ("एमसर्था एपिपन्य"), भारतींच प्रतिमृत्ति एवं विनान्य बोर्ड हारा निर्गन परिपन्न सं, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, तथा SEBI/HO/CFD/ SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, तथा SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 15 मई, 2022 तथा रोबी (सूनीवदद्वा दायित्व एवं प्रकटन अपेकारी) वित्तेयम 2015 (''सेबी सूनीवद्धता विनियम'') के अनुपालन में 38वीं एकीएम की सूनना में तिर्धारित व्यवसायों के तैन-देन के लिए योतसार इंटरनेशनल सर्वियेज लिमिटेड (''कम्पनी') की 38वीं सार्थिक

आम चैटक वीडिया कांफ्रेसिंग,अन्य ऑडियो दिवुअल साथनों (''वीसीओएवीएम'') सुविधा के माध्यम बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप, आयोजित की जायेगी। 38बी एजीएम की सुन्दम की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निर्देश एवं वार्षिक रिपोर्ट 2021 22 उन सदस्यों के पास भेज दिये जायेंगे जिनके ई–मेल पते आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल कम्प्यू पारतेर विधियेत क्याची या तिर्गोचियी भागीता के पाछ 10 वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना को भौतिक प्रति उन तरदस्यों को भैजी जाएगी जो अपने नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए como-liance@blsintemational.net पर अनुरोध करेंगे।

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकत नहीं कराये हैं उनसे निवेदन है कि वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारि शेयरों के परिप्रेक्ष्य में अपने डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक प्रारू में धारित शेयरों के लिए कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा कम्पनी के शेयर अन्तरण एजेंट (''आरटीए' ompliance@blsinternational.net/ beetalrta@gmail.com पर इसे पंजीकृत करा लें। sवीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कम्पनी की वेबसाइ

https://www.blsintemational.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.co और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.nseindia.con अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों वे रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण परितका बहरयतिवार. 15 सितम्बर. 2022 से बधवार. 21 सितम्ब

2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक चन्द रहेगी। 922 (६०)। लापपा साम्पर (१४० व.५. १९०)। ग्रम्मी अपने उत्त सदस्यों को सेंद्रल हिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') प्लेटफॉर्म : माध्यम से 36वीं एजीएम में रिमोट ई-बोटिंग या ई-बोटिंग दोनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार की सुविधा उपलब्ध करायेगी जिनके नाम 14 सितम्बर, 2022 (बुधवार) (''कट-ऑप नितानिक का जुन्निया के रिकेटरालाभार्थी स्वामियों की सूची में देन होंगे। सदस्य जिस भीतिक प्रारूप में तिबिप्') तक सदस्यों के रिकेटरालाभार्थी स्वामियों की सूची में देन होंगे। सदस्य जिस भीतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं अथवा जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं ये ई-वॉटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसकी रीति सहित ई-वॉटिंग की प्रक्रिया के निर्देश उड़वीं एजीएम

की सूचना के भाग के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन सदस्यों के पास डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं और वे अपना बैंक विवरण उपलब्ध/परिवर्तित/शुरू कराना चाहत है, ये इसे तुन्त कम्मनी के पास न भेजकर सम्बद्ध दिधायित्रदी भागीदार के पास भेंगे। सदस्यों से अपने डियॉजिटरी भागीदारों को अपने बैंक खाते का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड भी उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाता है। लाभांश का भुगतान करते समय आरटीए डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध डेट का ही उपयोग करेगा। ऐसे डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के मामले में जिन सदस्यों के पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण जैसे बैंक का नाम तथा शाखा का पता. शाखा का आर्रएफएसर्स

धारक मेहत कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी आईसीएसआई सदस्यता सं. एसीएस 40502 स्थान: दिस्स्नी तिथि: 20,08,2022 दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कर्णाटका बैंक लि. के लि

, केलालपुरी, नई दिल्ली-110045, साथ हीं: श्री रवि खोसरल, पुत्र विरेन्दर खोसरल, निवासी: आरजेंड-14, गली नं, 2, केलाश पुरी एकरें, पालम कॉलोनों, नई दिल्ली-110045 तथा श्री रवि खोसरल, पुत्र विरेन्दर खोसरल, निवासी: आरजेंड-10, बी-14, गली नं, 8, केलाश पुरी एकरें, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 तथा मार्टनैजर एवं स्वुरिटी श्रीमती मधु खोसला, पत्नी श्री रवि ने प्रतिकृति । अपने विकास के प्रतिकृति । अपने विकास पुर्व किया प्रतिकृति । अपने अनित । विकास विकास विकास विकास विकास | निवास | आरमेड - 14, गली - 7, 2, केनाच पुर्व किया प्रतिकृति । 110045 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर ऋण खाता के लिये लागू आगे के ब्याज, दंड ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ रु. 15.43.203/- (रु. पन्द्रह लाख तैतालिस हजार दो सौ तीन

अगरत, 2022 को अधोहरताक्षरी ने उक्त प्रतिभति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पटित अपीजन्यम् की धारा 13 की उप-धारा (४) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त राक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

पहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्य पता नाथ पाराग पाराणा जा ज्यापाय न कर एका इन रामाणा वा किया ना एक का ज्यापाय सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर ऋण खाता के लिये लागू आगे के व्याव, दंड च्याज तथा अन्य चार्जेज एयं उस्त राशि की चसूली के लिये वैंक द्वारा वहन की गई लागतों के साथ ह. 15.43.2037- के लिये "दी कांगड़ा को-ऑपरेटिय बैंक लि." के चार्ज के अधीन होगा क्षणधारक, मार्टरीजर एवं स्युरिटी का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पतियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में विज्ञीय परिसम्पतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्त अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विचाराधीन सम्पत्ति उप-रजिस्ट्रार IX, दिल्ली के पंजीकरण के अंतर्गत पश्चिमी भाग तल पर से मुख्य प्रवेश स्टिल्ट फ्लोर से ऊपरी तल तक जाने वाली पैसेज (बैक एवं सीढ़ियों के सामूहिक उपयोग एवं स्टिल्ट फ्लोर एरिया में एक साइड) में स्थित है, बाइक के पार्किंग के स्थान के साथ ग्राम नसीरपुर, दिल्ली राज्य छत के अधिकार के दिल्ली की राजस्व सम्पदा, कैलाश पुरी के नाम से विदित कॉलोनी, हता च जावनात का त्यां प्रतिकार वाच्या कार्या चुन कार्या च जाना सा तावारा कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्य यार्ड्स मार्प 40 वर्ष वार्य यार्ड्स में प्लॉट वर्ग यार्डस मे आरजेड-14 में छत/टैरेस के अधिकार के बिना निर्मित दूसरे तल (बैक साइड) का सभी भाग तथा हिस्सा।

पूर्वः 6 फीट चौड़ी गली पश्चिमः सम्पत्ति का भाग दक्षिणः सम्पत्ति का भाग चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तरः अन्य सम्पत्ति

्मीनाक्षी यत्स)
प्राधिकत अधिकारी
प्राधिकत अधिकारी
री कोगड़ को-अधिपटिय बैंक लि.
प्रधान कार्यालय: सी-29, कम्युनिटी सेटर पेखा रोड, जन्मपुरी सेटर पेखा रोड, जन्मपुरी, बंदिलनी-58 फोन नं, 9013568418, 9013568419

CIN: 1.25209RJ2809P1.C838620 पंजीकृत कार्यालय: 312, नवजीवन कोप्यलेख, 29, स्टेशन रोड, जयपूर-302006 ई-पेत: Investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट: www.vinayakpolycon.co फोन: 0141-237700

13वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, बुक क्लोजर और ई-बोटिंग की सुचना

1. विनायक पॉलीकॉन ट्रंटरनेशल लिपिटेड के सदस्यों को 13 वीं वार्षिक साधारण सभा (एनीएम) श्रीडियों कॉन्कॉमिश (बीमी) अन्य अहिंदयों विनुभल सप्तयत्त (ओएबीएम) के मध्यम से एनीएम के लेटिस में निमार्गित समाधारण और विशेष कवसायों के लेन-देन के लिए शुक्रवार, 16 सिमंतर, 2022 को दोपदर 12:00 बजे आयोंकिन की जायेगी ! 2. बैडिक की सुमला, सिमंतिय वर्ष के लिए ब्राइंग्डियों स्थाप, 2022 को समाण हो गई और रिपोट ई-बार्टिंग विवारण लोक्स प्रांत में मांच ये जन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनकी हैं-और भेज आईसी कंपनी, आदरीए, श्विचारिटरी के साथ पंजीकृत हैं। श्रोयाधारकों को नोटिस के संयर्ध में हैं-मेल भोजे आने

रभार हु- न्याटग 99 सितवा, 2022 को कट-ओफ लाग्छ के अनुसार, भौतिक या डिपर्टरियलाइन्ड फॉर्प में शंधर रखने बाले सरस्य मेदानव सिक्योरिटन हिप्पोनिटरी लिपोन्टर्स (एन्स्एसशिए) के इलोक्टीलिक सोरेंग सिस्ट्य (रिपोर्ट ई- बॉटिंग) के माध्यप से एजींग के नॉटिस में जर्सनिवत स्थान के अनावा किसी अन्य स्थान से निर्देट व्यवसायों पर अगल वॉट डाल सकते हैं। इसभी सदस्यों को सुचित्र नियम जाता है थि:

्जीएम की सुचता में उल्लेखित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक पाध्यमों से मतदान के माध्यम से लंग-देन किया

रिमोर वे-वॉटिंग 12 मितम्बर 2022 को पात- 9:00 बजे पारम्भ होगी और 15 मितंबर, 2022 को साथ

मतदान कारण कर--भीफ गारिक 0० सितंबर, 1,022 है। कोई भी स्वित, को एमीए में को को को हार क्रेपरी को शेवर प्राप्त कराता है या कंपरिक कोई भी स्वित, को एमीए के कोई को बाद क्र्यरी को शेवर प्राप्त कराता है तो सर्दर व्यवता है और कट--भीफ तारीख 00 सितंबर, 2022 तक शेवरों का धारण कराता है तो evoling@nsdi.co.m या आरहीए, प्राप्त सर्वित्वव वित्तियुक्त ब्राह्मीतिक अपने अपने अपने अपने अपने अपने स्वित्वव क्रिकेट क्रांति की अपने अपने अपने कर स्वत्त है। इतार्विक, धीवर प्राप्ति मार्थ-के बारिक स्वित्व यहार से स्वित्व कर स्वत्त है। इतार्विक, प्राप्त क्षात्र कार्या मार्थ-के स्वाद कर स्वत्त है। इतार्विक, प्राप्त क्षात्र कार्या मार्थ-के स्वाद कर स्वत्व है। इतार्विक, प्राप्त क्षात्र कार्या मार्थ-के स्वाद कर स्वत्व है। इतार्विक स्वत्व कर स्वत्व है। इतार्विक स्वत्व कर स्वत्व है। इतार्व स्वत्व कर स्वत्व है। इतार्विक स्वत्व कर स्वत्व है। इतार्विक स्वत्व है। इतार्विक

बादान के अनुभात महा जाए?!!! है बोरिंग के माध्यम से महाराण कराने की सुविधा एजीएम में उसलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्बों ने एजीएम से फहले ग्रिमोट ई-बोरिंग द्वारा अपना कोट डाला है, बीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वो

ति । ऐसं सदस्य लिक्सा नम्म हर्षानं तथा हिं। ऐसं सदस्य लिक्सा वाप स्टरस्थों कं रिजास्टर में या डिप्पॉलिस्टरी द्वारा क्लागु गए लाभकारी स्वाधिय कं रिजास्टर में कर- ऑफ सारीख कां दर्ज हैं, कंखन वे सदस्य ही एजीएम में ई-बांदिंग श्री रियो है-बांदिंग की सुनिया पाण करां पेसा कह्वारा होंगे। वेदिंग की सुचना कंपनी की वंबसाईट www.vinayakpolycon.com और ई-बांदिंग एजेसी कं

सदस्यों के लिए 🔋 बॉटिंग अयोगकर्ता पुरितका को www.evoting.nsdi.com के सहायक अनुभाग पा जाकर उल्लेख कर सकते 🖢 या टोल फी. र्थ. 1800-1020-990/ 1800-22-44-30 पर कॉल करें प voting@nsdl.co.in पर ई-पेल करें । सहस्य जिल्हा नाटरणी (कप्यनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) क n.com पर या 312, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 लिख सकते हैं या 91-141-2377007 पर कॉल कर सकते हैं।

ुकर्पना अधिनियम, 2013 की धारा 10, कंपनी नियम 10 (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और मंबी कं नियमन 42 (सुबीकरण दाधिनत एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में मदस्यों का रिवस्टर और कंपनी की श्रेय स्वाप्तारण पुस्तकें 10 सितंबर, 2022 से 16 सितंबर, 2022 (दोनी दिन सर्विविक्ता) आक्र बेटर ऐंगी । वास्ते- विनायक पॉलीकोन इन्टरनेजनल लिमिटी

हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (हिंदुस्तान ग्रुप का एक उद्यम)

OSBI

sì. टी. सी. लॉक प्रबंधन सेवाओं की खरीद की आर एफ पी के संदर्भ में बोली जगा करने की

अतिम दिनांक को 30.08.2022 तक बढ़ा दिया गया है. आर एफ पी में किए गा संशोधन बैंक की वैबसाइट <u>https://bank.sbi</u> के प्रोक्योरमेंट न्यूज लिंक और

https://e.tender.sbi/SBI/ पर 24.08.2022 तक डाल दिये जाएंगे.

पंजीकृत कार्यालयः कंचनजंगा, (7वां तल) 18, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 CIN: L31300DL1959PLC003141, ई-मेल investors@hindusthan.co.in वेबसाइटः www.hindusthanurban.com, फोनः +91-11-23310001-05

वेबसाइटः www.hindusthanurban.com, फोनः +91-11-23310001-05
वीडियो कांफ्रेंस/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (वीसी/ओवीएएम) के माध्यम से आयोजित होने वार्ती 62वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना
यह स्त्रीत हिया जार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना
यह स्त्रीत हिया जार्ज है के एक सामय साम पर सरका की भीतिक वर्षिकों के दिना, एंत्रीएम की मूरला में निर्धारित विश्व जार्ज है के एक सामय साम पर सरका की भीतिक वर्षिकों के दिना, एंत्रीएम की मूरला में निर्धारीत विश्व एंत्रीए और माध्यम में साम सामय साम पर सरका की भीतिक वर्षिकों के दिना एंत्रीएम की मूरला में निर्धारीत विश्व एंत्री का ताम कि त्या माध्यम सामय साम पर सरका की भीतिक वर्षिकों के दिना एंत्रीएम की माध्यम त्या साम प्रतिक के साम प्रतिक कंत्रीय (स्वाम) हो जार की विश्व माध्यम के भीतिक वर्षिकों के साम प्रतिक कंत्रीय (स्वाम) हो तथा की विश्व माध्यम के अव्यादन में किन्द्रसाम अर्थन कंत्रावर (स्वम) हो तथा की वर्षा माध्यम के प्रवाद पर साम प्रतिक कंत्रीय के प्रतिक है अपने हो तथा की साम प्रतिक कंत्रीय के साम प्रतिक कंत्रीय होता की स्वाम के प्रतिक है हो तथा की स्वाम के प्रतिक साम प्रतिक कंत्रीय के साम प्रतिक कर्तीय के साम करना के साम प्रतिक के साम के प्रतिक के साम के प्रतिक का में साम प्रतिक के साम के साम के साम के साम के प्रतिक के साम के प्रतिक कि साम के प्रतिक के साम के सा

कृते हिंदुस्तान अर्बन इंक्रास्ट्रक्यर लिमिटेड

टूकीप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालयः पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, बिल्डिंग नं. 4, डी.जे. हाउस, पुराना नगरदास मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई—400069, महाराष्ट्र जीएसटी नं.: 27एएएसीडी9887डी1जेडसी निगमित पहचान संख्याः एल24231एमएच1994पीएलसी33445

सार्वजनिक सूचना

सार्वजीनिक सूचना
जाता है कि बंधककृत स्वर्णाभूगणों की गीलागी का संचालटूकँप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) द्वारा 26 अगस्त 2022
को 11,00 बजे मयुर विद्यार में किया जाएगा।
शाद्धा पता: टूकँप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) पी-11
प्रथम तल, पाण्डव नगर, मयुर विदार 1, गई दिल्ली-110091
अपनी देशक बकाया धनरावित्यों का मुरातान करने में विश्वक हो चुके हमारे अनेक ग्राहकों के ऋण्
जवातों से सर्वित्येत सर्कामूरणों को नीलाम किया जाना है। नीलामी की हमारी सुचनाएं, इन्
ज्ञाराकर्ताओं को विश्वित्य रूप में मिनत की गई है।

ज्याराज्या नाम के प्राच्या निम्म वर्णित हमारे अनेक ग्राहकों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित त्वर्णाभूषणों की नीलामी की जानी हैं। देलशाद काँलोनी शाखाः DV210000023193, DV240000023132 रचणानुषणा का जाताना का जाना ह। दिलशाद कॉलोनी शाखाः DV2100000023193, DV2400000023132 GL0000000014005, GL0000000014156, GL0000000014317, GL0000000014513 GL000000015297, GL0000000015727, GL0000000017573, GL0000000018719

GL0000000019345 करिवामा शास्त्रा: DV210000015731, DV220000008760, DV22000001264 GL000000009551, GL000000011979, GL0000000012373, GL000000001271 GL0000000012393, GL0000000013073, GL0000000011578, GL00000001578 GL000000013827, GL000000014422, GL00000000115780, GL000000001660 GL0000000018358, GL000000018715, GL0000000018714, GL0000000019579 गाजियाबाद शाखाः GL000000013338, GL000000014145, GL00000001443

GL0000000017490

NE000000017490.

NE000000017490.

DV210000001200, DV21000000923

DV2100000022239, DV2100000021928, DV2100000022207

DV2100000022230, DV220000009044, GL000000009721, DV210000025318 GL000000011497, GL000000012290, GL000000013111, GL00000001315 GL0000000013498, GL0000000013643, GL0000000014095, GL000000001413 GL0000000019343.
국업 (GL0000000019343).
국업 福祉 (GL0000000019343).
국업 福祉 (GL000000001147, DV2100000023229, DV2200000007858).
GL000000001528, GL0000000013282, GL0000000013591, GL0000000015925

GL0000000016862, GL0000000017081, GL0000000017090, GL000000001726 GL0000000017766, GL0000000019895. GL000000017/06, GL000000018995, নাঁহর গাঁব সাহাল: DV240000014695, GL00000009849, GL000000012574 GL000000013966, GL000000015098, GL000000016142, GL000000017172 GL000000017984, GL000000018566, GL000000019309, GL000000019637

GL000000000... GL00000000020533. - बीकं चौक GL0000000011304, GL000000001282 প্রভাৱ । বাক শাক বাবল: GL000000011304, GL0000000011304 GL0000000013321, GL000000001416, GL0000000018303, GL0000000018305 GL0000000019236, GL0000000021101, GL000000002118, GL0000000021235 বছিলী বাবলং 5 লাজ: GL0000000014624, GL0000000018814, GL0000000019225 ছযুব্দি লাগ বাাবল: DV200000012357, DV21000001 6035, GL00000000014387

प्रताप विहार शाखाः GL0000000018272, अवाज 1981र चाडाा OLLOWOWOWISZ/12, पत्रवत शास्त्राः GL0000000020044, GL0000000020322. अधिक विवरणों के लिए कृपया दूर्कंप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि, के रूप अभिज्ञात) से संपर्क करें। जिनसे संपर्क किया जाना है, उन व्यक्ति का नाम : सतीश कुमार

संपर्क संख्या : 9560735444

दुर्कंप फाइनेस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट ति, के रूप में अभिज्ञात) के पास बिना कोः पूर्व सूचना दिए नीलाम किए जानेवाले खातों की संख्या में परिवर्तन करने तथा नीलामी कं स्थगित / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

टूकैप फाइनेंस लिमिटेर (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

की तारीख़ 29 अगम्म, 2022 है। यह कांपनी की वंबसाइट www.vinayakpolycon.com पर भी उपलब है। एजीएम में लेन-देश को लिए व्यापार की वस्तुओं से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुत सदस्य निवंशक को investor@vinayakpolycon.com पर ई. मेल भेब सकते हैं। यदि आपने कंपनी इ.चर्ची बटरा के साब ई.-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है तो कृपया सुखना वे निर्देश्ट निदेशों का पाल

दान के लिए कट-ऑफ तारीख 09 सितंबर, 2022 है ।

के हकदार नहीं होंगे ।तथा

वंबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। ई-वॉटिंग से संबंधित प्रश्नी / शिकायतों के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) एव

इस्ता./-शिखा नाटाणी (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी : सदस्यता सं.: 45901 द्वांक: 23.08.2022

Friday, September 16, 2022 at 11: 00 A.M at 324A, Illird Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

Notice is available on the website of the Company (www.goalpostftd.in). The Company is providing to its members facility to exercise their right to

The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 13th September, 2022 from 9:00 A.M. and end on Thursday 15th September, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid

2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE FOR AGM AND DIVIDEND

For and on behalf of Board

Pawan Kumar Mittal DIN: 00749265

ACE

सीआईएन: L74899HR1995PL053880 पंजी. कार्यास्त्र: दुओरत शिल जेंक. दुगोरता, विला परनवल-12:102. एरियाणा कौन: +91-1275-780111 (३० लाइन्ब), कैंबस: +191-1275-780133 ईं-बेल: CS@ace-trains.com. वेबनाइट: 'अराअ-श्रक-coranes.com 28वीं वार्षिक आम बैठक (पंजीएम), रिमोट ईं-बोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचन

प्रश्नात सूचना दी जाती है कि: (अ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम')' के प्रयोज्य प्रायामां एवं उसके तहत निर्मित नियमां तथा सामान्य परिव से 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 तथा 2/2022 क्रमणः दिवांब 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 तथा 5 मई, 2022 वें पंजीकृत हैं। एजीएम की यूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com, तथा स्टॉक एससपेंजों को वेबसाइट www.bscindia.com पा प्र www.nscindia.com पा पो उपलब्ध है। व) रिमोर ई-वोटिंग सुचना : कट-ऑफ तिथि अर्थात गंगलवार, 12 सितासर, 2022 तक भौतिक य

डान्टारविवाइक मांड, (फाजक्त भाव में अपर दक्त चाल सदस्या होग आर । जान सदस्या न अपने में मेल सर्प जीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए सिमेट ('रिमोट ई-वोटिंग') वोटिंग का तरिक 28वीं एजीएम की स्पना में प्रदान किया गया है।
 ऐसीट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान युक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 की 5.00 वर्ज अग. समाद होगा।
 प्रारम्भ होगा और सोम्यरा, 19 सितम्बर, 2022 की 5.00 वर्ज अग. समाद होगा।
 ई-वोटिंग 28वीं की एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य

करने की कर-ऑफ तिथि 13 सितान्यर, 2022 हैं। कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्थित करता हैं और 28र्थी एजीएम की सूचना भेजे जाने वे पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 13 सितान्यर, 2022 क्

evoting@nsdl.co.in/1800 1020 990 तथा 1800 224 430/ पर सम्बन्ध कर सम्बन्ध व अभिषेक मित्रा, प्रयोगक (एनएसडीएल) से evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं सदस्य ध्यान दें कि :

एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। (ख) सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसे बदल

सदस्या न एजाएस से पूर्व रासाट इन्यादित होता सवान कर तत्था कर दा भा एजाएस न शामित्स होत सकते हैं किन्तु ये दुवारा मतदान करने के पात्र नहीं होगे। (च) जिस सदस्य का नाम कर-ऑफ तिथि अर्थात 13 सितमस्य, 2022 को डिचॉजिरती हार अनुरक्षित लाभार्थी स्वागियों के रिजस्टर में अथवा सदस्यों के रिजस्टर में दर्ज है केवाल करें रिमोट ई-चोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-चोटिंग का उपयोग करने के पात्र होंगे। (इ) निप्पक्ष तथा चारदर्शी ढंग से रिमोट ई-चोटिंग तथा एजीएम में ई-चोटिंग की संस्वीक्षा के लिए

मैसर्स विशिष्ट एएड एसोसिएटस कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है (स) बुक क्लीचर , पुन: एतहारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की शाव 91 तथा सेवी (सूचीबद्धत दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों थे रिजस्टर तथा कम्पनी की शेषर अन्तरण पुरितका मंगलवार, 13 सिताचर, 2022 से मंगलवार

शेयरधारक शेयरधारक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लाभांश भुगतान पर टीडीएस के संबंध में कंपनी संचार और कंपनी के 28वीं एजीएम के नोटिस में संबंधित मामलों का सन्दर्भ ले सकते हैं।

नर्ड दिल्ली

तिथि : 23 अगस्त, 2022 स्थान : पलवल

BLS

एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार तथा खाता संख्या आरटीए के पास ईं–मेल ह्वा beetalrta@gmail.com पर जमा करने का परामर्श दिया जाता है। कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटे

स्थानः गनौर, हरियाणा

(अचल सम्पति के लिये) (अयल सम्पात क लिख)
जैसा कि, विचीय परिसमित्तियों के प्रतिभृतिकरण एयं पुनिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत दी कांगड़ा को-ऑपरेटिय बैंक लि, जिसका प्रधान
कार्यात्य सी-29, कम्युमिटी सेन्टर, पंखा गेंड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में है तथा पंजी,
कार्याः. 1916, जूना मंद्री, एसाइगंज, नई दिल्ली-110058, के प्रधिकृत अधिकारी के रूप में
वाया प्रतिभृति वित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 के नियम 3 के साथ पंदित थारा 13 (12) के
अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.01.2021 को जारी
कर ऋणधारको एच मार्टनीजर श्री रवि खोसला, पुत्र विरोदर खोसला, निवासीः आरजेड-58, गली नं,

उक्त ऋणधारक, ऊपर वर्णित मार्टगैजर एवं स्युरिटी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मार्टगैजर, स्युरिटी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं स्युरिटी तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली